



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

# स मा चार

राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिये पांचों उम्मीदवारों के नामांकन वैध

निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द

**भोपाल : 17 मार्च, 2020.**

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिये रिक्त होने वाले तीन स्थानों की पूर्ति हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन अंतर्गत नामजदगी के अंतिम दिन 13 मार्च, 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के तीन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन-पत्र दाखिल किये गये थे।

दिनांक 16 मार्च, 2020 को दोपहर 2:00 बजे से प्राप्त नामांकन प्रपत्रों की संवीक्षा राज्यसभा निर्वाचन, 2020 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर श्री ए.पी. सिंह के कार्यालय में प्रारंभ हुई। जांच के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्री दिग्विजय सिंह एवं श्री फूलसिंह बरैया तथा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रंजना बघेल के नामांकन-पत्र विधिमान्य पाये गये तथा उन्हें स्वीकार किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी श्री रामदास दहीवाले का नामांकन-पत्र विधिमान्य न होने के कारण रद्द किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा श्री सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन पत्रों पर की गई आपत्तियों के संबंध में आज दिनांक 17 मार्च, 2020 को दोनों पक्षों को सुना जाकर दर्ज आपत्तियों को अमान्य करते हुए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा श्री सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन पत्रों को विधिमान्य करते हुए स्वीकार किया गया।

राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की अधिसूचना अनुसार अभ्यर्थिता से नाम वापसी दिनांक 18 मार्च, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे तक हो सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 26 मार्च, 2020 को पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5:00 बजे से मतगणना सम्पन्न होगी।

वि.स./ज.स./2020

(मुकेश मिश्रा)  
अवर सचिव

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523037, 2440223 फैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : [vidhansabha-mp@nic.in](mailto:vidhansabha-mp@nic.in) वेबसाइट : <http://www.mpvidhansabha.nic.in>